



INSPIRA- JOURNAL OF MODERN MANAGEMENT & ENTREPRENEURSHIP

(A National Quarterly Double Blind Peer Reviewed Refereed Journal of IRA)

Volume 07 No. 04 October, 2017

CONTENTS

1	FACTORS INFLUENCING THE STUDENT'S CHOOSING OF BUSINESS ADMINISTRATION AS A MAJOR: THE CASE OF ARAB OPEN UNIVERSITY-OMAN BRANCH	01-09
	Dr. Abedalqader Rababah, Tajnuva Chowdhury, ArwaHmed AL-Marzooqi & Faisal AL-Mudhafar	
2	REGIONAL RURAL BANKS AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT (A CASE STUDY OF BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK)	10-14
	Prof. (Dr.) Kshama Agarwal & Amit Gupta	
3	STUDY THE EFFECTIVENESS OF HR TRAINING TO SELECT TEACHERS ON ICT SKILLS	15-20
	Prof. K. Parthasarathy	
4	LAYOUT AND LOCATION VIZ CUSTOMER RELATIONSHIP: INCREASING THE PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY OF THE RETAILS STORES IN RAJASTHAN	21-26
	Prof. Harsh Purohit & Anushree Dullar	
5	GREEN BANKING: AN APPROACH FOR ACHIEVING SUSTAINABLE AND BALANCED GROWTH IN NEW MILLENNIUM	27-33
	Ankit Goel, Dr. Rajendra K. Khatik & Prof. K. S. Thakur	
6	ADHERENCE LEVEL OF EARL MODEL: A STUDY WITH SPECIAL REFERENCE TO MEDIUM SCALE TEXTILE INDUSTRIES	34-40
	Dr. Krishna C.Y.S & Dr. Megharaj B.R	
7	CONQUERING MILES TO REACH A MILESTONE: HOW BABA RAMDEV TURNED PATANJALI INTO ` 5000 CRORES BUSINESS	41-47
	Anudeep Arora	
8	IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TOURISM INDUSTRY	48-52
	Honoria Samson	
9	ANALYZING FUND MANAGEMENT BEHAVIOUR OF YOUTH	53-56
	Prof. Rekhaben D. Patel	

10	ETHICS: THE BIG TICKET OR THE DIME STORE FOR LEGAL EDUCATION IN INDIA	57-62
	Rishika Srivastava & Kartikey Sahai	
11	LEADERSHIP: AN EFFECTIVE DEVICE IN AN ORGANIZATION	63-66
	Dr. Rupali R Shinde	
12	MAKE IN INDIA: AN OVERVIEW	67-70
	Renu Arora & Dr. Prabhu Dayal Choudhary	
13	VIRAL MARKETING: IMPACT ON BUSINESS ORGANIZATIONS	71-78
	Dr. Monika Chopra	
14	A STUDY TO DISSECT IMPACT OF GST ON RURAL INDIA	79-84
	Divya Jindger	
15	NON PERFORMING ASSETS OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR BANKS IN INDIA: A STUDY	85-90
	Bhawana Kumari & Dr. Sanjay Biyani	
16	FINANCIAL MANAGEMENT OF SELECTED SMALL SCALE INDUSTRIAL UNITS IN KOLHAPUR DISTRICT: AN ANALYSIS	91-95
	Dr. Shaha N. V. & Dr. Shinde Mahadev Annappa	
17	IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMER'S BUYING BEHAVIOUR: A STUDY	96-98
	Suruchi Madan & Pallavi Chaturvedi	
18	AN EMPIRICAL EVIDENCE OF HEDGING EFFECTIVENESS OF FUTURES CONTRACTS IN COMMODITIES MARKET	99-106
	Dr. P. Sri Ram	
19	ADHERENCE OF CORPORATE GOVERNANCE: A STUDY OF LISTED COMPANIES IN BSE	107-114
	Anjana Gupta	
20	IMPACT OF REWARD MANAGEMENT SYSTEM ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE WITH SPECIAL REFERENCE TO HOTEL INDUSTRY IN JAIPUR: A LITERATURE REVIEW	115-124
	Dr. Sarabjeet Kaur Gogia & Manisha Soni	
21	E-LEARNING: TRENDS AND POSSIBILITIES IN HIGHER EDUCATION IN INDIA	125-130
	Richa Sharma & Dr. Parul Agarwal	
22	A COMPARATIVE STUDY OF GROWTH ANALYSIS OF BANK OF BARODA AND ICICI BANK LIMITED	131-135
	Pankil Solanki & Dr. Hitesh Shukla	
		0

23 DEMONETIZATION AND ITS IMPACT ON INDIAN ACCOUNTING AS WELL AS ON INDIAN ECONOMY Dr. Omprakash Gusai 136-142 ON INDIAN ECONOMY Dr. Omprakash Gusai 143-147 YOUNG MALE AND FEMALE CONSUMERS Pramod Kumar Nayak & Dr. Sathya Swaroop Debashish 143-147 YOUNG MALE AND FEMALE CONSUMERS Pramod Kumar Nayak & Dr. Sathya Swaroop Debashish 148-152 25 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN INDIA: A REVIEW OF LITERATURE Dr. Ashok Kumar Gupta, Dr. (Mrs.) Meenu Maheshwari & Ms. Pragya Gaur 153-159 26 RELATIONSHIP BETWEEN COMMITMENT, MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDIAN BANKS Dr. Ritu Narang & Shashi Bharti 160-164 27 DEMOGRAPHICAL INFLUENCE ON CONSUMER BUYING: AN EMPIRICAL INVESTIGATION Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu 165-170 28 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 171-173 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 171-173 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 174-178 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha Pharat Kum			
24 INVESTIGATION OF DIFFERENCE IN SHOPPING CHARACTERISTICS AMONG YOUNG MALE AND FEMALE CONSUMERS Pramod Kumar Nayak & Dr. Sathya Swaroop Debashish 143-147 25 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN INDIA: A REVIEW OF LITERATURE Dr. Ashok Kumar Gupta, Dr. (Mrs.) Meenu Maheshwari & Ms. Pragya Gaur 153-159 26 RELATIONSHIP BETWEEN COMMITMENT, MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDIAN BANKS Dr. Ritu Narang & Shashi Bharti 153-159 27 DEMOGRAPHICAL INFLUENCE ON CONSUMER BUYING: AN EMPIRICAL INVESTIGATION Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu 160-164 28 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 165-170 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 171-173 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 174-178 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 179-182 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 189-193 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 189-193 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA	23		136-142
YOUNG MALE AND FEMALE CONSUMERS Pramod Kumar Nayak & Dr. Sathya Swaroop Debashish 25 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN INDIA: A REVIEW OF LITERATURE Dr. Ashok Kumar Gupta, Dr. (Mrs.) Meenu Maheshwari & Ms. Pragya Gaur 26 RELATIONSHIP BETWEEN COMMITMENT, MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDIAN BANKS Dr. Ritu Narang & Shashi Bharti 27 DEMOGRAPHICAL INFLUENCE ON CONSUMER BUYING: AN EMPIRICAL INVESTIGATION Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu 28 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONCE AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 148-152 148-1		Dr. Omprakash Gusai	
25 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN INDIA: A REVIEW OF LITERATURE Dr. Ashok Kumar Gupta, Dr. (Mrs.) Meenu Maheshwari & Ms. Pragya Gaur 26 RELATIONSHIP BETWEEN COMMITMENT, MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDIAN BANKS Dr. Ritu Narang & Shashi Bharti 27 DEMOGRAPHICAL INFLUENCE ON CONSUMER BUYING: AN EMPIRICAL INVESTIGATION Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu 28 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 148-152 169-152 169-153 179-182	24		143-147
LITERATURE Dr. Ashok Kumar Gupta, Dr. (Mrs.) Meenu Maheshwari & Ms. Pragya Gaur 26 RELATIONSHIP BETWEEN COMMITMENT, MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDIAN BANKS Dr. Ritu Narang & Shashi Bharti 27 DEMOGRAPHICAL INFLUENCE ON CONSUMER BUYING: AN EMPIRICAL INVESTIGATION Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu 28 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 153-159 163-159 165-170 160-164 170-170 170-170 170-170 17		Pramod Kumar Nayak & Dr. Sathya Swaroop Debashish	
26 RELATIONSHIP BETWEEN COMMITMENT, MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN INDIAN BANKS Dr. Ritu Narang & Shashi Bharti 27 DEMOGRAPHICAL INFLUENCE ON CONSUMER BUYING: AN EMPIRICAL INVESTIGATION Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu 28 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 150-16 160-164 160-164 160-164 170-164 160-164 170-164 160-164 171-173 165-170 171-173 171-	25		148-152
PERFORMANCE IN INDIAN BANKS Dr. Ritu Narang & Shashi Bharti 27 DEMOGRAPHICAL INFLUENCE ON CONSUMER BUYING: AN EMPIRICAL INVESTIGATION Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu 28 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 160-164 160		Dr. Ashok Kumar Gupta, Dr. (Mrs.) Meenu Maheshwari & Ms. Pragya Gaur	
DEMOGRAPHICAL INFLUENCE ON CONSUMER BUYING: AN EMPIRICAL INVESTIGATION Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu 28 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 160-164 160-164 160-164 160-164 160-164 160-164 160-164 165-170 165-170 174-173 174-173 174-173 174-173 174-178 174-178 174-178 174-178 174-178 179-182	26		153-159
INVESTIGATION Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu 28 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 165-170 165-170 165-170 174-173 171-173 174-173 174-178 174-178 174-178 184-178		Dr. Ritu Narang & Shashi Bharti	
165-170 IMPACT OF CLEAN INDIA CAMPAIGN ON TOURISM: A STUDY BASED ON JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma PRURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 165-170 165-170 165-170 165-170 165-170 171-173	27		160-164
JAIPUR CITY Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma 29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 171-173 174-175 174-178 174-17		Dr. Kunal Gaurav & Prof. Kishor Chandra Sahu	
29 RURAL MARKETING STRATEGIES OF FAST MOVING CONSUMER GOODS IN RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 194-198	28		165-170
RAJASTHAN Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma 30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 174-178 174-178 174-178 174-178 189-182		Lucky Vijayvargiya, Dr. Mini Amit Arrawatia & Dr. Narendra Sharma	
30 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 174-178 174-178 174-178 174-178	29		171-173
ONGC AND IOC Dr. Leena Bhatia 31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN 189-193 Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 194-198		Dr. Aditi Jain & Vidhi Sharma	
31 BECOME ENTREPRENEUR AT ZERO CAPITAL WITH HELP OF SOCIAL MEDIA (WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN 189-193 Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 194-198	30		174-178
(WITH SPECIAL REFERENCE OF FACEBOOK AND INSTAGRAM) Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha 32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 189-198		Dr. Leena Bhatia	
32 ADAPTATION OPTIONS IN COASTAL ZONE AREAS MANAGEMENT IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 183-188 183-188 184-198	31		179-182
FACE OF CLIMATE CHANGE IN INDIA Dr. R. Prabhakar Rao 33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 194-198		Bharat Kumar Soni & Dr. Dhirendra Ojha	
33 PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 189-193 194-198	32		183-188
Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi 34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 194-198		Dr. R. Prabhakar Rao	
34 ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA 194-198	33	PROBLEMS OF AGRICULTURAL CREDIT IN RAJASTHAN	189-193
		Dr. Santosh Garhwal & Pooja Joshi	
Rajeshkumar P.Patel	34	ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES IN INDIA	194-198
		Rajeshkumar P.Patel	

35	DETERMINANTS OF FIXED CAPITAL REQUIREMENTS OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN BARAK VALLEY, ASSAM	199-204
	Md. Iqbal Uddin Tapadar, Prof. Nikhil Bhusan Dey & Dr. Kingshuk Adhikari	
36	BASEL ACCORDS AND INDIAN BANKING	205-210
	Prof. Arun H. Gaikwad & Anuradha C. Hastak	
37	STRATEGIC HR LEADERSHIP: KEY TO SUCCESSFUL TALENT MANAGEMENT	211-215
	Sana Khalique & Prof. M. K. Singh	
38	DEMONETIZATION AND ITS IMPACT ON BANKING AND INDIAN ECONOMY: AN ANALYTICAL REVIEW	216-218
	Shweta Tanwar	
39	START-UP INDIA: STRATEGIES, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES	219-224
	Inakshi	
40	EMPLOYEES JOB SATISFACTION AND ITS COMPONENTS IN A GENERAL INSURANCE COMPANY: A STUDY	225-228
	Shikha Jalan & Shikha Pareek	
41	ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT	229-232
	Archana Singh	
42	ONE NATION ONE TAX- CHALLENGES AHEAD	233-236
	Shuchi Singhvi	
43	TRAINING IS AN INVESTMENT: AN OVERVIEW	237-239
	Prameela Natarajan	
44	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN CEMENT INDUSTRY: (A STUDY WITH SPECIAL REFERENCE TO SELECTED UNITS IN RAJASTHAN)	240-244
	Dr. Ashok Sharma & Anupam Jain	
45	BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTING: A MOVE TOWARDS BETTER CORPORATE GOVERNANCE	245-248
	Ms. Vishranthi B. Salgaonkar	
46	THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN INDIA	249-251
	Dr. Hemant Singh Panwar	
47	ROLE OF SBBJ IN THE GROWTH OF SMALL SCALE INDUSTRIES IN RAJASTHAN	252-254
	Dr. Sushma Mann	

48	GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS: IMPACT ON INDIA AND POLICY RESPONSE	255-258
	Dr. Bindrawan Lal	
49	EXPLORING INDIVIDUAL TAXPAYERS' SATISFACTION LEVEL FOR E-FILING SYSTEM IN INDIAN CONTEXT	259-265
	Monika Arora & Dr. Rajni	
50	MERGERS AND ACQUISITIONS IN INDIAN TELECOM SECTOR: A STRATEGIC ANALYSIS	266-272
	Mahesh Dilip Chawla	
51	RESEARCH AND SOCIAL MEDIA: AN OVERVIEW	273-276
	Prof. Hamdani Rizwana	
52	STRATEGIC CHALLENGES FOR SUCCESSFUL MERGER OF AN AIRLINE (S)	277-284
	Dr. J. Venugopal	
53	A COMPARATIVE STUDY OF DEMOGRAPHIC TRENDS OF MAHARASHTRA AND GUJARAT STATES	285-290
	Dr. Sanjay A. Pandya	
54	INDIA'S POSITION IN WORLD AGRICULTURAL EXPORTS	291-294
	Dr. Santosh Garhwal & Dr. Hemadri Sharma	
55	HRM PRACTICES FOR PROMOTING INNOVATION IN SMEs: A REVIEW	295-298
	Bhumika Sharma, Satinder Pal & Hardeep Singh Saini	
56	OWNERSHIP STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE: EVIDENCE FROM INDIAN FIRMS	299-303
	Rupali Gupta	
57	माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की परामर्श एवं निर्देशन के लिए जागरूकता का अध्ययन	304-308
	श्रीमती मीनाक्षी एवं डॉ. साजिदा सादिक	
58	महिला सहकारी बैंक में नवोन्मेषी बैकिंग सेवायें	309-312
	प्रोफेसर रेणु जटाना एवं सोनिया सोनी	
59	लघु उद्योग और वस्तु एवं सेवा करः सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ	313-318
	जयप्रकाश प्रजापति	

60 अनुसृशित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के सामाजिक वातावरण तथा शैक्षिक उपलिक्षि पर शहरीकरण के प्रमाव का अध्ययन डॉ. श्रीमती किरन तिवारी 319-322 61 जीवन बीमा कोषों का विनियोग प्रबन्ध (भारतीय जीवन बीमा निगम के सन्दर्भ में एक आलोचनात्मक अध्ययन) डॉ. विकास बंसल 323-328 62 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् और जगदुफ आदि शंकराचार्य के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. मैनाक्षी शर्मा एवं ममता एनी 333-342 63 मोबाइल बँकिंग—डिजिटल इंडिया का डिजिटलाइजेशन डॉ. डुम्पन्तं रें समिकित विवेचना डॉ. प्रयोग्तरपण पर प्रमाव अंग्रु स्वारायण गीतम एवं सुनीता 343-347 65 दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रमाव अंग्रु नावरिया एवं डॉ. उमा जैन 353-357 66 विद्यालय विकास में स्व—भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत भिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण प्रजूकुमारी गैंड एवं डॉ. पुरलीधर मिम्रा 358-361 67 प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) डॉ. विनिता अग्रवाल 362-365 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफेड एवं सहकारी बँकों का तुलनात्मक अध्ययन अध्ययन 362-365 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 371-374 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY Prof. (Dr.) Arun H. Gaikwad & CMA Rohit Poddar			
61 जीवन बीमा कोशों का विनियोग प्रबन्ध (भारतीय जीवन बीमा निगम के सन्दर्भ में एक आव्ययन) 323-328 87 विकास बंसल 329-332 62 डॉ. सर्वपल्ली राघाकृष्णन् और जगदुरू आदि शंकराचार्य के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन 329-332 83 मोबाइल बैंकिंग-डिजिटल इंडिया का डिजिटलाइजेशन 333-342 84 मास के नाटकों में समेकित विवेचना 343-347 85 दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव 348-352 85 वौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव 353-357 86 विद्यालय विकास में स्व-भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत मिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समित सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण 359-361 87 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) 358-361 88 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औद्यत्य-हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन 362-365 80 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औद्यत्य-हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन 362-365 80 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्ध का क्रावेश 366-370 81 सहकारी संस्थाओं में पेशवर प्रविक्त का क्रावेश 366-370 82 सहकारी संस्था का क्रावेश 371-374 83 सहकारी संस्था का तुल	60		319-322
अलोचनात्मक अध्ययन) डॉ. विकास बंसल 62 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् और जगदुरू आदि शंकराचार्य के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. मीनाक्षी शर्मा एवं ममता रानी 63 मोबाइल बैंकेंग-डिजिटल इंडिया का डिजिटलाइजेशन डॉ. दुष्यन्त देव राजपूत 64 भास के नाटकों में समेकित विवेचना डॉ. पूर्यनारायण गौतम एवं पुनीता 65 दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव अंखु नावरिया एवं डॉ. उषा जैन 66 विद्यालय विकास में स्व-भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत मिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण राजूकुमारी गौंड एवं डॉ. पुरलीधर मिश्रा 67 प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) डॉ. विनिता अग्रवाल 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य-हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. कविता बौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY		डॉ. श्रीमती किरन तिवारी	
62 डॉ. सर्वपत्ली राधाकृष्णन् और जगदुरू आदि शंकराचार्य के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. मीनाक्षी शर्मा एवं ममता एनी 329-332 63 मोबाइल बैंकिंग—डिजिटल इंडिया का डिजिटलाइजेशन डॉ. दुष्पन्त देव राजपूत 333-342 64 भास के नाटकों में समेकित विवेचना डॉ. एस्प्रंनारायण गौतम एवं सुनीता 343-347 65 दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव अंखु नावरिया एवं डॉ. जम जैन 348-352 66 विद्यालय विकास में स्व—भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत मिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण राजूकुमारी गौड एवं डॉ. मुस्तीधर मिश्रा 353-357 67 प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) डॉ. विनिता अग्रवाल 358-361 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी 362-365 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 366-370 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY 371-374	61	•	323-328
अध्ययन डॉ. मीनाक्षी शर्मा एवं ममता रानी 63 मोबाइल बैंकिंग—डिजिटल इंडिया का डिजिटलाइजेशन डॉ. दुष्यन्त देव राजपूत 64 भास के नाटकों में समेकित विवेचना डॉ. पूर्यनारायण गौतम एवं सुनीता 65 दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव अंखु नावरिया एवं डॉ. जग जैन 66 विद्यालय विकास में स्व—भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत भिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण राजूकुमारी गौड एवं डॉ. मुरलीधर मिश्रा 67 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) डॉ. विनिता अग्रवाल 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY		डॉ. विकास बंसल	
1333-342 333-342 333-342 333-342 333-342 343-347 34	62		329-332
64 भास के नाटकों में समेकित विवेचना 343-347 डॉ० सूर्यनारायण गौतम एवं सुनीता 348-352 65 दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव 348-352 अंजु नाविरिया एवं डॉ. उषा जैन 353-357 66 विद्यालय विकास में स्व-भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत भिन्नता के आधार पर एक्कुमारी गौड एवं डॉ. मुरलीधर मिश्रा 353-357 67 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) 358-361 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य-हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. किवता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी 362-365 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) 366-370 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY 371-374		डॉ. मीनाक्षी शर्मा एवं ममता रानी	
64 भास के नाटकों में समेकित विवेचना 343-347 डाँ० सूर्यनारायण गौतम एवं सुनीता 348-352 65 दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव 348-352 अंजु नाविरेया एवं डाँ. उषा जैन 353-357 66 विद्यालय विकास में स्व—भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत भिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण गण्युकुमारी गौड एवं डाँ. मुरलीधर मिश्रा 358-361 67 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) 358-361 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन डाँ. कितता चौधरी एवं डाँ. सुमन चौधरी 362-365 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) 366-370 Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY 371-374	63	मोबाइल बैंकिंग–डिजिटल इंडिया का डिजिटलाइजेशन	333-342
डॉ० सूर्यनारायण गौतम एवं सुनीता 65 दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव 348-352 360 विद्यालय विकास में स्व—भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत भिन्नता के आधार पर 353-357 विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण रण्कुमारी गौड एवं डॉ. मुरलीधर मिश्रा 67 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) 358-361 दॉ. विनिता अग्रवाल अध्ययन 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफंड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन 362-365 अध्ययन इॅ. किवता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी 366-370 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) 366-370 Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 371-374 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY		डॉ. दुष्यन्त देव राजपूत	
65 दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव 348-352 अंजु नाविरेया एवं डॉ. उषा जैन 353-357 66 विद्यालय विकास में स्व-भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत भिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण राजूकुमारी गौड एवं डॉ. मुरलीधर मिश्रा 353-357 67 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) डॉ. विनिता अग्रवाल 358-361 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य-हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. किवता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी 362-365 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 366-370 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY 371-374	64	भास के नाटकों में समेकित विवेचना	343-347
अंजु नाविरया एवं डॉ. उषा जैन 66 विद्यालय विकास में स्व—भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत भिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण राजूकुमारी गौड एवं डॉ. मुरलीधर मिश्रा 353-357 67 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) 358-361 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन 362-365 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) 366-370 Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY 371-374		डॉ० सूर्यनारायण गौतम एवं सुनीता	
66 विद्यालय विकास में स्व-भूमिकाओं के प्रति क्षेत्र तथा लिंगगत भिन्नता के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण राजूकुमारी गौड एवं डॉ. मुरलीधर मिश्रा 353-357 67 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) डॉ. विनिता अग्रवाल 358-361 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य-हैफेड एवं सहकारी बेंकों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी 362-365 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 366-370 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY 371-374	65	दौसा जिले में कृषि के आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव	348-352
विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रत्यक्षीकरण राजूकुमारी गीड एवं डॉ. मुरलीधर मिश्रा 67 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) डॉ. विनिता अग्रवाल 68 सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी 69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY		अंजु नावरिया एवं डॉ. उषा जैन	
67प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)358-36168सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन362-36569ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR)366-370Dr. Rajeev Saxena & Sunita LathDISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY371-374	66	ε,	353-357
विश्लेषणात्मक अध्ययन) डॉ. विनिता अग्रवाल सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY		राजूकुमारी गौड एवं डॉ. मुरलीधर मिश्रा	
68सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य—हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक362-365अध्ययनडॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी366-37069ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR)366-370Dr. Rajeev Saxena & Sunita LathDISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY371-374	67	,	358-361
अध्ययन डॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी 89 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY		डॉ. विनिता अग्रवाल	
69 ROLE OF REGIONAL RURAL BANKS IN PRIORITY SECTOR LENDING (AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY 366-370 371-374	68	<u> </u>	362-365
ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO AGRICULTURE SECTOR) Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath 70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY 371-374		डॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. सुमन चौधरी	
70 DISCOUNTED CASH FLOW MODEL WITH REFERENCE TO IT COMPANIES: A STUDY 371-374	69	·	366-370
STUDY		Dr. Rajeev Saxena & Sunita Lath	
Prof. (Dr.) Arun H. Gaikwad & CMA Rohit Poddar	70		371-374
		Prof. (Dr.) Arun H. Gaikwad & CMA Rohit Poddar	